

LIL:CS:REG 30:2021-22 Date: 07.06.2021

BSE Limited Listing & Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers,	The National Stock Exchange of India Limited Listing & Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G,
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051
Security Code : 517206	Symbol : LUMAXIND

Subject: <u>Submission of Clippings of Newspaper Advertisement in respect of Transfer of Unpaid/Unclaimed</u>

<u>Dividend for the Financial Year 2013-14 and the underlying Equity Shares to IEPF</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(1)(d) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, please find enclosed herewith copies of the Notice published by the Company for the attention of equity shareholders regarding proposed transfer of Equity Shares, in respect of which dividends have not been claimed / paid during the last seven years, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) in the newspaper on June 06, 2021 viz. the Financial Express (English- All Edition) and Jansatta (Hindi-Delhi), titled- "TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND AND THE UNDERLYING EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT".

The published copies will also be made available on the website of the Company at www.lumaxindustries.com .

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

Janke Nahandhu

PANKAJ MAHENDRU COMPANY SECRETARY M.NO. A-28161

Encl.: as above





'Delhi to set up genome sequencing labs to prepare for 3rd Covid wave'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 5

DELHI CHIEF MINISTER Arvind Keiriwal on Saturday anno-Kejriwal on Saturday anno-unced the setting up of a paedi-atrictask force and two genome atric task force and two genome sequencing labs as well as a plan to ramp up oxygen capacity to prepare for a possible third Covid wave that could peak at 37,000 cases aday. The government will also create a buffer stock of important medicines, Kejirwal salad an online briefing. The two genome sequencing labs to identify variants of the virus attackine the cirk will

virus attacking the city will come up at the Lok Nayak Jai come up at the Lok Nayak Jai Prakash Hospital and the Insti-tute of Liver and Bilary Sciences (ILBS), the CM said. He said he held a six-hour meeting with officials and experts on Fridayto prepare a comprehensive plan for a third wave of the coron-avirus. In case the number of dailyinfectionshits 37,000 dur-ing the third wave the covers. ing the third wave, the govern-ment will.be prepared.

"At the peak of the second

Franklin

Templeton unit

holders to get

₹3,205 cr in

fourth tranche



Delhi CM announced the setting up of a paediatric task force to prepare for a possible third Covid wave PT

wave, 28,000 cases were reported on one day. On the reported on one day. On the basis of our consultation with experts, we are assuming that during the peak of the third wave, there might be 37,000 cases. Keeping this number in mind, we will ramp up our beds, oxygen capacity and medicines," he said.

The government is buying 25 oxygen tankers and putting

up 64 oxygen plants in the next few weeks to ensure Delhi does-n't face another oxygen crisis as it didduring the secondwave, he said. "Delhi is not an industrial state and doesn't have its own tankers but we are buying 25 tankers in order to prepare for the third wave."

the third wave."

"We are creating an oxygen storage capacity of 420 tonne to tackle the possibility of another oxygen crisis. We have spoken to Indraprastha Gas Limited and asked them to create a 150-tonne oxygen production plant," the CM added.

The government will also be setting the approach of the setting of the se

setting up a separate paediatric task force to give recommendatask force to give recommenda-tions on protecting children during the third wave. Based on their advice, the government will set up ICU and oxygen beds, and procure specific equipment for children, he said. Besides, the government will also create a buffer stock of important medicines and pri-vate hospitals will also be given instructions to do so, he said.

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK B-156, Lok What, Road No. 44, Pitampura, Your Perfect Banking Partner

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 5

SBIFUNDS MANAGEMENT (SBI MF) will distribute the fourth tranche of ₹3,205 crore to unit holders of Franklin Templeton Mutual Fund's six shuttered schemes during the week beginning Monday.

With this, the total dishursement will reach bursement will reach

With this, the total dis-bursement will reach ₹17,778 crore, amounting to 71% of assets under manage-ment (AUM) as on April 23, 2020, a Franklin Templeton MF spokesperson said. Under the first disburse-port in Express

ment in February, investors received ₹9,122 crore, while received ₹9,122 crore, while ₹2,962 crore were paid to investors during the week of April 12 and in the latest dis-bursement during the week of May 3, investors were paid ₹2,489 crore.

₹2,489 crore.

"SBI Funds Management
Pvt Ltd (SBI MF) would be distributing the next tranche of
₹ 3,205.25 crore to unit
holders across all six schemes. holders across all six schemes. The payment to all investors whose accounts are KYC compliant withal details available will be made during the week of June 7, 2021; the spokesperson said.

The amount to be distributed to without the work of the mount to be distributed to without exist possible proportionate units at the reasset value dated June 4, 2021, he added.

financialen.ep.m.in

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD | SEADON | MARCH | MAR The Federal Bank Ltd. Chandi Chowk, 64, Katra Baryan, Fabburur, Dabit 14006. Your Partest Banking Parters

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

sale in the branch on or after 23/86/2021 as shown below:

BRANCH/VENUE S. INAME 8.

The Federal Bark Ltd. 1. Ajit Singh Talwar Chandric Chowk 64, 2. Ajit Singh Talwar Karba Baryan, Fatehpuri, 3. Ajit Singh Talwar Baryan, Fatehpuri, 4. Monty Shah

Place: Delhi Date: 96.96.2021

Federal Bank Ltd, Branch Ghaziabad, B-7
Rajnagar District Center (RDC)
Raj Nagar, Ghaziabad-201001 (LP.)
NOTICE FOR PRIVATE SALE UP BULL
NOTICE FOR PRIVATE SALE UP BULL tice is hereby given for the information of all concerned that Gold omanents pledged in lowing Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are oven redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be sale in the resective branches on any date after 28.06.2021 as shown below:

iii nii a i a sha	cuve bialicies oil ally date.	alter 20.00.202 ras si	iowii below.	- 1		
VENUE : FEUERAL BANK LID, BRANCH GHAZIABAD, 8-7						
AJNAGAR,	AJNAGAR, DISTRICT CENTER (RDC) RAJ NAGAR, GHAZIABAD-201001(U.P.)					
	ACCOUNT NU	JMBER & NAME		$\overline{}$		
00019176	Anuj Tyagi	16146100019309	Varun Thakkar	\neg		
00000000	Makeuk Chard Torri	10110100101022	Married Devota	_		

7	ACCOUNT NO	IMBER & NAME	
16146100019176	Anuj Tyagi	16146100019309	Varun Thakkar
16146200005083	Mahesh Chand Tyagi	16146100019325	Neeraj Pandit
16146100019192	Sanjay Kumar	16146400006469	Ankur Kumar Pathak
16146100019234	Babita Sirohi	16146400006451	Ankur Kumar Pathak
16146100019291	Manita Gupta	16146400005370	Nidhi Puri
Place : Ghazlabad			Branch Manager
Date : 04.06.2021			Federal bank Ltd.

General Services Administration Division, Head Office, Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075, Ph. 011 28044402, E-mail: renovation@pnb.co.i

Punjab National Bank invites intofar from New Delhi Municipal Corporation (NDMC) empanelled Structural Engineers for Censultaney Services for structural stability of the Bank's Building at 5, Sansard Marg, New Delhi. Commoncements of Tender download 506.02 cell from 1100 https://doi.org/10.100 htt

ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059

POSSESSION NOTICE
[RULE 8(1) SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]

ersigned being the Authorized Officer of the ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD

2. The Bornower(s)/Co-Bornower(s) Mortgagor(s) in particular and the public in general ser hereby cultioner for to deal with the properly and any dealings with the properly will be subject to the dealey of CRIX LEASING SAPACULAL SERVICES STATE. JAILTO an amount mentioned in the demand notice together with further interest and other charges from the advanced of the dealer of

Name of Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Mortgagor(s)	Description of Properties	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession	Amount in Demand Notice(Rs.)
1. LN000000002967 SUNNY THAKUR, MONIKA THAKUR	ALL THAT PECE AND PARCEL OF LADO AND AND THE PROPERTY BENG UNIT H NO-19, FIRST FLOOR WITH HAVE AND THE PROPERTY BENG UNIT H NO-19, FIRST FLOOR WITH A NORTH AND	12-March-2020	01-June-2021	Rs 4918115.75/-
2. UN000000013241 KAMAL PRUTHE KAMAL PRUTHE MONIKA PRUTHE LIDEEPAK PRUTHI, AMITA PRUTHI AMITA PRUTHI	ALL THAT PRECE & PARCEL OF LAND & BULDING, THE PROPERTY BEBUND AND PROPERTY SENSO UNTO PROP NO.4-12, TWO SHOP ON GEOLOME FLOOR WITHOUT ROOF THE AREA OF VILLAGE NANCE LAND. WITHOUT AND PROPERTY AREA MESSIGNING APPROX. ADMINISTRATION OF THE PARTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY OF THE SAID PROPERTY OF THE SAID PROPERTY AND FUTURE AND PROPERTY OF THE SAID PROPERTY OF THE SAID PROPERTY AND FUTURE AND SAY.	12-March-2021	01-June-2021	Rs 2984845.93/-

C>lassifieds

PUBLIC NOTICE My citent, PISHORI r/o 49, T Huts, Vishal Enclave, N.D-110027 has discoved his sons VICKY and RAJ KUMAR and their families from his all assets and properties and severed all relations with them. Any person dealing with them shall be doing all at his own risk etc.

PUBLIC NOTICE

CAPACIT'E INFRAPROJECTS LIMITED

NOTICE

Dated: June 06, 2021

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK
SATKAR BUILDING, 6 1-4, 79-80, NEHRU Your Perfect Banking Partner NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Branch / Venue: Sa Name	A/c. No.	Name	A/c. No.
MR Raibmal Haque Karriech Dawar Karriech Dawar Karriech Dawar Karriech Dawar Karriech Dawar Raipan Kishore Kuar Kukreja Uminder Micha Tarun Arora Aronider Kumar Prashand Arora Upotsana Khan Mohd Askam Jyotsana Khan Yash Madaan Sibu Hantal Pritam Kumar Kanhaya Kumar Pritam Kumar Kanhaya Kumar Podor Jahan Suril Sowariya Moho Jahan Suril Sowariya Moho Jahan Sarila Bahada Sarila Sowariya Moho Jahan Sarila Sowariya Moho Jahan Moho Jaha Moho Jaha Moho Jaha Moho Jaha Moho Jaha Moho Jaha Moho Jaha Moho Jah	13026100159185 13026100153402 13026400006983 1302610015302 1302610015302 1302610015302 1302610015308 1302610015308 1302610015308 1302610015380 1302610015380 1302610015380 1302610015387 1302610015387 1302610015387 1302610015419 1302610015419 1302610015419 1302610015419 1302610015419	Suril Bescys Sabu Sebastian Sabu Sebastian Suril Sawariya Indrawati Sabu Sebastian Shahzad Anreer Naushad Raw Chopra Watchaw Kumar Vijeta Awana Penad Grigh Prince	1302610156546 1302610156540 130261015660 130261015660 130261015660 130261015015660 130261015015660 130261015015660 130261015650 1302610156560 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 130261015660 1302610157656 1302610157656 1302610157656

LUMAX INDUSTRIES LIMITED DE JAIN

Registered Office: 2" Floor, Herbarra Bhasain II. Commercial Complex, Cancer Corporate Office: 2" Floor, Herbarra Bhasain II. Commercial Complex, Corporate Office: Pol No. 878, Llspoy Vista; Please V, Gusuyam: 122016, Haryana Phone: 0124-470000. Email: Lurransher@Burnasmail.com. Websiter were unarrainstret@smasmail.com.

Website: www.lumandusines.com
(For the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sfer of Unpanquinclaimed Divided and the Underlying Equity Shares
To the Investor Education and Protection Fund (Jep?) account

Jean Shareholders.

Nemark to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013
ead with the Investor Education and Protection Fund Authority
Accounting, Audit, Transfer and Return(J Rules, 2016 (if the Rules), as
mended from time to time, every Company is required to transfer to the
versetor Education and Protection Fund(EEPF). The money in the
logical Dividend Account of the Company which remains unpaid
unclaimed for a period of 7 (seven) years from the date it was
anasferred to such account and the Company is required to inform the
harharholders whose shares are labels to be transferred to the IEPF
information and protection in the
way of the protection of the
way of the protection of the
way of the
way wish to inform you take the
transferred to the
way to
way the
way to be
way to
way the
way t

simultaneously publish the notice in the newspapers. In view of above, we wish to inform you that the due date for transfer into IEPF of the Unpaid/Inclaimed Dividend lying in the Unpaid Dividend Account of the Company for the Financial Year 201-14 is 20° September, 2021. Accordingly, concerned Shareholders are the underlying above of south Studenders will also be transferred to the IEPF all voting rights on the same shall be frozen and you will lose all benefits accordingly out shares e.g. dividend, etc. as this shall also be transferred to the IEPF all voting transferred to the IEPF all voting rights on the same shall be frozen and you will lose all benefits according on your shares e.g. dividend, etc. as this shall also be transferred to the IEPF.

which are flee an use-shares through Depositories by way of Corporate Passage Strain (EPF Authority.

The concerned shareholders whose shares are in physical form may further note that their details uploaded by the Company on its website should be regarded and considered as an adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF authority as per Rules.

purpose of transfer of shares to the IEPF authority as per Rules:
In case the Company does not receive any communication from the
concerned shareholders by 07° September 2021, the Company with a
vew to adhering with the requirements of the Rules, transfer the
dividend & shares to the IEPF by the due date is 20° September, 2021.
Please note that no claim shall be against the Company in respect
of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF
Shareholders may claim the dividend and corresponding shares
transferred to IEPF including all benefits according on such shares, if
any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed
in the Rules.

any, flotiness. The Review of the above matter. Shareholders are requested to more Reviews on the above matter. Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent. Mr. Rejere (Murrac, Depty) Manager at Mis Kin Technologies Probet Limited, Life (Murrac, Depty) Manager at Mis Kin Technologies Probet Limited, Limited (Limited) (Lim

For LUMAXINDUSTRIES LIMITED COMPANY SECRETARY

Clix Capital Services Private Limited

CIN: U65929DL1994PTC116256
Regd. Office: 4th floor, Kailash Building, Kasturba Gandhi Marg,
Connaught Place, New Delhi, North East -110001
Telephone: +91-124 3302000 | Website: www.clix.capital

(INR In lakhs)

	Half Ye	ear ended	Year ended	
Particulars	31-Mar-21 Unaudited	31-Mar-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited	31-Mar-20 Audited
Revenue from operations				
Interest income	22,048	22,997	44,217	44,677
Rental Income	5	1000000	5	ALCOHOL:
Fees and commission Income	1,080	1,292	1,977	2,330
Net gain on fair value changes	258	576	354	1,063
Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category	908		908	
Total revenue from operations	24,299	24,865	47,461	48,070
Other income	1,607	293	2,015	2,574
Total income	25,906	25,158	49,476	50,644
Expenses				1111111
Finance costs	12,924	13,971	26,183	27,822
Fees and commission expense	183	137	294	361
Impairment on financial instruments	7,259	7,505	11,788	3,056
Employee benefits expense	1,632	2,741	4,081	5,908
Depreciation and amortization	889	800	1,814	1,709
Other expenses	2,544	2,789	4,599	5,969
Total expenses	25,431	27,943	48,759	44,822
Profit(loss) before tax	475	(2,785)	717	5,822
Tax expense:		- 8		
(1) Current Tax	937	(2,922)	937	(416
(2) Deferred Tax	(684)	1,763	(617)	4,160
Profit/(loss) for the year	222	(1,626)	397	2,075
Other comprehensive income				
a. Items that will not be reclassified to profit or loss				
Remeasurements of defined benefit liability	23	33	48	71
Income tax effect	(6)	(7)	(12)	(18
 b. Items that will be reclassified to profit or loss 				
Other Comprehensive Income , net of income tax	17	26	36	53
Total comprehensive income for the year	239	(1,600)	433	2,128
Earnings per equity share*				
Basic (INR)	0.02	(0.12)	0.03	0.15
Diluted (INR)	0.02	(0.12)	0.03	0.15
Nominal Value per share (INR)	10.00	10.00	10.00	10.00

la	In	R	IN	1	
В	ın	ĸ	IN	23	

Statement of Standalone Asset and Liabilities as at 3	1 March 2021	
Particulars	As at 31 March 2021 Audited	As at 31 March 2020 Audited
ASSETS		
Financial assets		
Cash and cash equivalents	6,273	12,573
Bank balance other than above	8,472	1,021
Loans	2,88,033	2,93,641
Investments	1,37,290	1,21,260
Other financial assets	5,821	1,586
Total Financial Assets	4,45,889	4,30,081
Non- financial assets		
Current tax assets (net)	3,285	8,346
Deferred tax assets (net)	5,026	4,421
Property, plant and equipment	662	852
Intangible assets	3,301	2,696
Intangible assets under development	478	1,205
Right-of-use assets	1,030	669
Other non- financial assets	2,932	2,695
Total Non-Financial Assets	16,714	20,884
Assets held for sale	511	6
Total assets	4,63,114	4,50,971
LIABILITIES AND EQUITY		
LIABILITIES		
Financial liabilities		
Payables		
I) Trade payables		
a) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	20	0
b) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	5,666	535
II) Other payables		
a) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		2
b) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	2,304	2,580
Debt securities	1,27,384	1,29,379
Borrowings (other than debt securities)	1,23,170	1,23,613
Lease liabilities	1,267	715
Other financial liabilities	6,180	2,351
Total Financial Liabilities	2,65,971	2,59,173
Non financial liabilities		
Provisions	1,300	1,224
Other non-financial liabilities	643	800
Total Non-Financial Liabilities	1,943	2,024
Equity		
Equity share capital	1,43,599	1,40,758
Other equity	51,601	49,016
Total equity	1,95,200	1,89,774
	4.63.114	4.50.971

Notes:
The above results for the year ended March 31, 2021 have been audited by the Statutory Auditors of the Company and have been exided by the Statutory Auditors of the Company and have been exided by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on June 04, 2021, in accordance with the requirement of Regulations 20 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended. ese Standalone Financial results have been prepared in accordance with the counting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Compared to the Compared nce with the re nies Act, 2013 (the "Act") read with the relevant rule

issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

(a) Credit Rating and Changes in Credit Rating (if any): The CARE Ratings Limited (CARE) and Brackwork has assigned followin ratings to the Company:

(Amount Rs. in lasks)

(Filliam)			
t	Rating as at	7	
21	March 31, 2020		
		_	

Rating agency	Outstanding Limit as at March 31, 2021 (In lakhs)	Rating as at March 31, 2021	Rating as at March 31, 2020
CARE Ratings Limited			
Non-Convertible Debentures	16300	CARE A+ (Stable)	CAREAA-(Negative)
Market Linked Debentures	8580	CARE PP-MLDA+; Stable	888
Bank Facilities	54800	CARE A+ (Stable)	CAREAA-(Negative)

Dept. (App. 1982) CAREA-(Nigative) CAREA-(Stable) CAREA-(Nigative)

| Asset cover available: The Company in maintaining an adequate asset cover by way of enation of pari passu charge by injordnession on the receivables with respect to its secured listed Non-Convertible Debenfures.

| New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Convertible Debenfures. | New York Co

New Delhi

(i) Basic: 0.03 per share (ii) Diluted: 0.03 per share

Rashmi Mohanty
Whole Time Director and Chief Financial Office
DIN: 07072541

AUTHORISED OFFICER
ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED Place: New Delhi Date: 05.06.2021

सूर्यास्त- 19:17

जनसत्ता, नई दिल्ली, 6 जून, 2021

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने जारी किए ताजा आंकडे

दिल्ली एनसीआर की हवा पूर्णबंदी में भी रही दूषित

नई दिल्ली, 5 जून।

पूर्णवंदी के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ पाया गया, वहीं निगरानी तंत्र में भी कमी पाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने वायु गुणवत्ता विश्लेषण के ताजा आंकड़े जारी किए हैं जो दर्शाता है कि दिल्ली आकड़ जारा किए ह जा देशाता ह कि दिल्ला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में महामारी के दौरान हवा कैसी थी। यह आकलन अवधि सितंबर 2018 से मई 2021 जाउरित जाया रहिता है से ने 2025 तक है जिसमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार तीन सर्दियों के मौसम, पूर्व और महामारी युग और पूर्णबंदी के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है।

परिपोर्ट बताती है कि 2020 में मार्च से मई और अप्रैल-जून, 2021 में पूर्णबंदी के दोनों चरणों के दौरान महीन धूल कर्णों (पीएम 2.5) के स्तर् में काफी गिरावट आई है, जुबकि क स्तर में काफ़ा गिरावट आई है, जेबाक पुरुआती महोनों में आधिक प्रतिवंधों के बावजूद प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई हैं। सीएसई की कार्यकारी निदेशक-अनुसंधान और वकालत अनुमिता रॉय चीधरों ने कहा है कि इसके कारण की जांच की आवश्यकता है। . आमतौर से वसंत का समय जनवरी से मार्च

पंजाब नैश्ननल बेंक 🙋 punjobr

न्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट क4, सेवटर-10, द्वारका नई दिल्ली 110075, फोन: 011 28044402, E-mail: renovation@pnb.co.in निविदा सूचना 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली में बैंक के भवन की संरचनात्मक स्थिरता के लिए परामर्श सेवाएं हेतु

निविच्य डाउनलोड करने की तिथि- दिनांक 06.06.2021 को प्रात:11.00 बजे से निविच्य दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 14.06.2021 को अपराह 3.00 बजे तक है। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट <u>https://pnbinda.in</u> देखें।

उपरोक्त कथित कार्य से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जिसे इच्छुक बोलीदाताएं नियमित रूप से देखते रहें । सहायक महाप्रबन्धक — सिविल

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) असंदत एवं अदावाकृत लामांश एवं अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

का 11-184 के शिक्षा पूर्व पुरस्ता 1-1114 (आह्राङ्क्षपाएक) में अंतरण किया गंदिस गंदसालक विशेष अंतरण किया गंदसाल किया एवं संस्थान निर्मेश प्रतिस्थान (संख्रांक निर्मेश अंतरण और अंतरण और अंतरण अं

जाएगा। इस प्रकार के शंदर, आईसीपएक को अतारित किए जाने के उपस्तर, सभी
सारिकिशर समानत होने आएने हमा आज कम शेरा पर धानियन, होने मोत करी ने जान अपनी लगागर, आदि से वर्षिक हो जाएगे, त्यांकि इसे भी आईईपीएक को अतारित कर दिया जायगा।
कर्मानी ने दिवामान परिश्वितियों में जब भी ज्यावतां एवं संभव हुआ है तो अशारीत अर्था है तो स्वार्थ के अतारित कर सार्थ के अर्था है अर्था है जो अर्था है तो अर्था है जो अर्था है अर्था है अर्था है जो अर्था है जो अर्था है जो अर्था है जो अर्था है अर्था है जो अर्था है अर्था है अर्था है अर्था है अर्था है जो अर्था है अर्थ है अर्था है अर्थ है अर्

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भीआईएन: 1.74899DL1981PLC012804 बंजी. कार्यात्वय: दिवरीय तल, हरवा मधन-॥ कमवियत कॉम्पलेक्स मारा तथा वर्ष दिव्यती-1000 कॉपिट कार्यात्वर प्ला- स्वत हरू तथीन विहार फेल-V. गुरुशाम 122016, हरियाण दुरुगाय: 0124–476000 टिमें : lumasshau@llumasmail.com



जब सर्दियों के बाद प्रदूषण का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। सीएसई के अविकल जब सादया क बाद प्रदूषण का स्तर कम हाना सुरू हो जाता है। सीएमई के अविकल सोमवंशी ने कहा कि इस वर्ष पीएम 2.5 पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में उच्चतम मीसमी स्तर पर दर्ज किया है। यह विश्लेषण दिल्ली और एनसीआर में

वर्तमान में काम कर रहे वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से उपलब्ध वास्तविक समय के आंकड़ों (रियल टाइम डाटा) पर आधारित है। दिल्ली का निगरानी

नेटवर्क 2020 के अंत तक 40 स्टेशनों (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति या डीपीसीसी के 24, आइएमडी के 8,

सिक्रेय स्टेशनों को संख्या आइएमडी के सभी प्रदेशनों के ऑफ्लाइन हो जाने के कारण घटकर 32 हो गई है। बुगड़ी क्रांसिंग पर आइएमडी का स्टेशन 13 दिसंबर, 2020 से बंद (ऑफलाइन) है, जबकि आयानगर, सीआरआरआर मथुरा रोह, आइआइटी, प्रदेशने (स्थान) के स्टेशन 10 मार्च, 2021 को बंद हो गए। वास्तव में, उनके दो अन्य स्टेशन (स्थान) पहाडी मरुमाध्य और गोपड़ा पता चर्च हा गर्ने पतालच में राजिय चा जारे ची पार्टें स्टेशन (ग्वाल) पहाड़ी, गुरुग्राम और नोएडा सेक्टर 62 भी ऑफलाइन हो गए हैं। कुल मिलाकर, दिल्ली और एनसीआर के पांच बड़े शहरों में निगरानी नेटवर्क की संख्या

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 6 और आइआइटीएम के 2) तक बढ़ गया,लेकिन सक्रिय स्टेशनों की संख्या आइएमडी के सभी

58 स्टेशनों से घटकर 48 स्टेशनों पर आ गई है। डेटा की कम उपलब्धता के साथ यह चिंता का विषय है क्योंकि इससे निगरानी नेटवर्क कमजोर हो जाता है।

मोजर बेयर सीलर लिमिटेड — परिसमापन में संकार्यण : U749990L2007PLC160162 की आंतरा के सम्पूर्वण / अपना हेतु प्रसाय प्रस्तुत करने हेतु आनंत्रण (सारांकि हस्तुत करने हेतु आनंत्रण (सारांकि हस्तुत करने हेतु आनंत्रण (सारांकि हस्तुत करने हातु आनंत्रण आंतरांकि हसारांक प्रस्तुत करने हातु आनंत्रण आंतरांकि हसारांकि प्रसारांकि प्रसारांकि अध्याना की हिम्मानांकि (सारांकि हसारांकि हसारा

षात् आस्तियों का समनुदेशन / अंतरण। घ में आगे प्रश्नों तथा जानकारी के लिए आप नीचे वर्णित कोन नम्बरों पर सम्पर्क क

अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : अरविन्द रिसमापनाधीन **मोजर बेयर सोलर लिमिटेड** के परिस पारसमाधनामान माजन स्वर सार्वर हालाम्ड क पारसमाधक आईसी एवंकरण सा (BBIRPAS)म्म 2005/21/18/10/18/ 02-ए पाल मोहन प्लावा देश बन्धु गुरत्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-11000 मोबाइल : 497 071300274 (की दीपक कुमार) मोबाइल : 491 977301110 पानेमूल हैं-मेल पाल । mindagn(3) (Bgmall.com संबार हेतु ई-मेल पाल । moserbase.av/ind@gmall.com

लिमिट		ऋण राशि	ऋण तिथि 02.06.2021 को व्याज के साथ देवता	व्याज दर
निधि	1.	₹. 9500000.00	₹. 6984305.17	11.50%
आधारित	2			
	3.			
गैर-निध	1.		1	
आधारित	2.			
	3.			

हिरावी रखी गई हावधोबेकेटेड थेवल बद बार विश्वी/ हावधोबेकेटेड वीराव्यक्तियों हाती पार्ट जे. एस-4256, कीराव हिरार हारतीय है जेड़ प्रथम के.-2, न्याचार हारतीय एवं विश्व-मधुरा एस. के.-2 प्रथम वीरात विस्तृत विवरण दी जाए

पूर्वी निगम विद्यालय के छात्रों को मिलेगी तीन सौ रुपए की मदद

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महीपीर निर्मल जैन ने बताया कि डीबीटीबी (दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक) के माध्यम से 300 से ज्यादा निगम विद्यालयों में पादव पुस्तक भेजी जा रही है, जिससे वह पुत्तके संबंधित विद्यालयों की और से वहां पड़ने वाले छात्रों को वितरित को जा सके। इसके अलावा पूर्वी निगम के तरफ से सभी छात्रों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रॉसफर) माध्यम द्वारा लेखन सामग्री के लिए 300 रुपए की नकद सब्सिडी भी वितरित की जा रही है।

जाना का पता, फंडरल बेंक,
1-4 कॉनीलएट ज़रिल गेटर,
केंद्रिक्ट, ज़रिल गेटर,
केंद्रिक्ट, ज़रिल गेटर,
केंद्रिक्ट, ज़रिल गेटर,
केंद्रिक्ट, व्हिल गेटर,
केंद्रिक्ट, वहिल गेटर,
केंद्रिक्ट, वहिल गेटर,
केंद्रिक्ट, वहिल गेटर,
केंद्

शाखा/स्थान	धाता संख्या	नाम	खाता संख्या	नाव
फेडल बैक,	11946200004118	सस्यजेत सिंह	11946100065864	फ्रेडी फिलिए
4 कॉन्वेनिएट प्रापित	11948100084147	रॉप मॉन मे	11946100065672	सहित सेपानी
वेम्टर,	11946100065599	सहित सेवानी	11946200003938	सुरव सुदर्शन
शरएगड, नई दिल्ली-	11948200003821	गोनिका फिलिए	11946200003946	कलजीत कीर
110021	11946200003847	मोहम्मद शरागर	11946100065748	सारित रोपानी
	11946200003870	सरोज सुदर्शन	11946100065813	सहित सेवानी
नः नई दिल्ली,		-		साखा प्रबंध
W: 5.6.2021				द फेड्सन बैक 1

रेल सेवा की बहाली

रेलगाड़ी सं. 02287/02288 सियालदह – बीकानेर जं. -सियालदह दुरन्तो स्पेशल रेलगाड़ी की सेवा को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

गाड़ी सं. 02287		स्टेशन	गाड़ी सं. 02288	
आगमन	प्रस्थान	स्टरान	आगमन	प्रस्थान
	17:00	सियालदह	13:15	122
05:30	05:35	कानपुर सेंट्रल	00:40	00:45
11:00	11:25	नई दिल्ली	19:20	19:45
18:25		बीकानेर जं.		12:15

आदेश तक (प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार एवं गुरुवार) तथा 0228ह बीकानेर जं से दिनांक 11.06.2021 से अगले आदेश तक (प्रत्येक सोमवार

मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार) को स्थान : प्रथम वाता., 2 टियर वाता., एवं 3 टियर वाता.

नोटः उपरोक्त विशेष रेलगाड़ी पूर्णतः आरक्षित श्रेणी के डिब्बों से युक्त होगी।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड—19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के समी नियमों और अन्य समी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य हैं।

रेलमात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाहियों के मार्ग में पढ़ने वाले स्टेशनों एवं नकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदर हेल्यलाहून नं. 139 पर सम्पर्क अथवा रेलवे की वेनसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in उपया NTES ऐप देखे



📇 🔀 पर हमें फॉलो करें

प्रकार करिया है। अपनी हिम्स प्रकार करिया है। अपनी प्रकार है। अपनी है। अपनी प्रकार है। अपनी है।

पृष्ठि सं. 774/ई, माप 83.5 वर्ष मज, खसरा मं. 412/132-133 के परिचयों भाग पर निर्मित्र आधार्याच सम्मणि का प्रिकटियल संधक, माम बावरपुर, लियित्र गाली मं. 3, हराका जाहरदा, किया-गाली का प्रिकटियल संधक, माम बावरपुर, लियित्र गाली मंडे संघर-माम प्रियम्भ के प्राच्छा माने प्रीच्छा के प्राच्छा माम प्रीच्छा माम प्रीच्छा माम प्रीच्छा माम प्रीच्छा सम्बाद्ध माम प्रीच्छा सम्बद्ध माम प्राच्छा सम स्वाच्छा सम्बद्ध माम प्राच्छा सम्बद्ध माम प्राच्छा सम्बद्ध माम स्वाच्छा सम्बद्ध माम स्वाच्छा सम्बद्ध सम्बद्ध माम स्वाच्छा सम्बद्ध माम स्वाच्छा सम्बद्ध स

कपा जाता है । (यह सूचना कर्जदाताओं/जमानतियाँ के लिए प्रतिभृत हित प्रवर्तन नियम−2002 के नियम (9

(बह यूपन कर्जवाताओं ज्यानियों के लिए प्रीत्मुत वित प्रवर्शन नियम-2002 के नियम (के उपनियम () के क्यानिया एवं नहीं के लिए कृपण कर्नाटक बैंक रिलिटेट की देखा (क्षेत्रन के वित्तृत नियम एवं नहीं के लिए कृपण कर्नाटक बैंक रिलिटेट की देखा (क्षेत्र के) हिंक देखें - ने-नावार्ष 5 जिस्क के अपीक्षित वित्तृत राहित 1507.2021 को 11.20 को यूपी से 12. को अप, तक पोर्टन के अपीक्षित वित्तृत राहित 1507.2021 को 11.20 को यूपी से 12. वने अस. तक पेटले https://hankauctions.in/ के माणना से संपत्तित को जानगई इन्यूस संविद्यालय की https://hankauctions.in/ परेशना नाम परिश्चेत्र करने का निश्चाल स्मृत्य आर्टित परं पायर्थ प्राप्त करने अधीवत के तथा मेसते श्रवीत्तर, ८००० ,०० मीला, मीलाना, असीलान, मीलाना असीलान के तथा मेसते श्रवीत्तर, ८००० ,०० असीला, मीलाना, असीलाना असीलाना (1402-2021) से पायर्थिका आर्ट्साटांका तथा में देनाव्यों के विषय में असिलाना असीलान (1402-2021) से पायर्थिका आर्ट्साटांका में मिलानी के विषय में असिलाना असीलान (1402-2021) से पायर्थिका मार्टित में मिलानी के विषय में असिलाना असीलाना (1402-2021) से पायर्थिका मार्टित में BOI 44A

THE RIGHT OPPORTUNITY HAS FOUND YOU!

Now Hiring!

Business Development Associate

एकारा जनसम्बन्ध को सूचिव किया जात है कि कमनी अपने पंत्रीवृत्त कार्यालय को "सीवव्या राज".
"अवन प्रोत्त राज" में परिवर्शित करने के लिए 04.07.201 को आमंत्रित आमाशास कम प्रोत्त के पति कर परिवर्श के प्रतिक्र प्रतान के प्रतिक्र कि प्रतिक्र के पति कर प्रतान कर प्यान कर प्रतान कर प्



कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड



















